

‘नोटिस-एकेडमॉस’ (हिन्दी) 2018 में शोध पत्र देने हेतु

प्रिय साथियों

कमला नेहरू कॉलेज के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल ‘एकेडमॉस’ (हिन्दी) में आगामी अंक के लिए आप सभी, विभिन्न अकादमीय/गैर अकादमीय संस्थाओं से जुड़े विद्वानों/लेखकों, अध्यापकों अथवा शोधार्थियों के हिन्दी में लिखे लेख आमंत्रित हैं। यह जर्नल सहकर्मी समीक्षित पियर रिव्यूड है, अतः प्राप्त शोध-पत्र पहले सम्बन्धित क्षेत्र के विशेषज्ञों के पास पियर रिव्यू के लिए जाएंगे, जिसकी प्रतिक्रिया(फीडबैक) से आपको परिचित करा दिया जाएगा, तत्पश्चात अंतिम संपादित लेख प्रकाशित होगा। शोध-पत्र किसी भी अकादमीय अनुशासन में लिखे हो सकते हैं। शोध पत्र देने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर है।

शोध-पत्र के लिए जर्नल की नियमावलियां तथा निर्धारित नीतियाँ इस प्रकार हैं-

नियमावली-

- लेख हिन्दी में होने चाहिए। ये किसी भी विषय अथवा क्षेत्र से सम्बन्धित हो सकते हैं।
- शब्द सीमा 3000 से 4000 तक होनी चाहिए।
- लेख यूनिकोड अथवा क्रुतिदेव में होना चाहिए तथा शीर्षक हेतु 18 व लेख हेतु 14 फॉण्ट साइज रखें।
- शोध-पत्र के अंत में लेखक का नाम, पुस्तक का नाम, प्रकाशक का नाम, प्रकाशन स्थल, प्रकाशन वर्ष, पृष्ठ संख्या क्रमानुसार लिखें। सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची लेख के अंत में फुटनोट सहित (यदि हैं) दें।
- कृपया शोध-पत्र के अंत में अपना संक्षिप्त परिचय भी दे दें। तदुपरांत सम्प्रति, संपर्क सूत्र तथा ई-मेल आई डी क्रमानुसार लिखें।
- शोध-पत्र के नियम और शैली के सन्दर्भ में एकरूपता का ध्यान रखा जाना आवश्यक है।

नीतियाँ-

- सभी लेख अप्रकाशित और मौलिक होने चाहिए।
- यदि कोई लेख पूर्व प्रकाशित अथवा अन्य किसी लेख अथवा लेखांश की प्रतिलिपि (डुप्लीकेट कॉपी) पाया जाएगा तो वह प्रकाशन प्रक्रिया की किसी भी अवस्था में रद्द कर दिया जाएगा।

किसी भी लेख में अति साहित्यिक नकल(extensive plagiarism) (25% से अधिक) का प्रयोग निषेध है। लेख को रद्द करने के समस्त अधिकार सम्पादन मंडल के पास सुरक्षित हैं।

- पियर रिव्यू के लिए भेजे जाने वाले लेखों की प्रक्रिया गोपनीय रखी जाएगी। सभी लेख सम्बन्धित क्षेत्र के विशेषज्ञों के पास पियर रिव्यू के लिए जाएंगे जिनके नाम गुप्त रखे जाएंगे।
- कृपया सभी लेख, जमा करने अथवा पुनर्निरीक्षण के लिए, निर्धारित समय सीमा के भीतर भेजें। निर्धारित तिथि के बाद आए लेख स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- जर्नल में स्वीकृत/प्रकाशित हुए लेखों का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए निम्नलिखित ई मेल आई. डी. पर सम्पर्क कर सकते हैं।
- कृपया अपने शोध-पत्र निर्धारित अवधि के भीतर निम्नलिखित ई-मेल आई. डी. पर [भेजें-
kncaacademoshindi@gmail.com](mailto:kncaacademoshindi@gmail.com)

प्रधान सम्पादिका

डॉ. सुषमा सहरावत

(9891483516)

(9811562307)

सम्पादन मंडल

डॉ. मैत्रेयी कुमारी

डॉ. रजत रानी आर्य

(9911043588)

डॉ. अनुराधा गुप्ता

(9968253219)

डॉ. साधना अग्रवाल

(9891349058)

डॉ. कुमारी अनीता

(9871559047)